

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भारत के पहले गृह मंत्री महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। उत्सव के मद्देनजर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और एनएसएस इकाई ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

एनएसएस, जामिया के 100 से अधिक वोलेंटीयर्स ने डॉ. आबिद हुसैन, सहायक प्रोफेसर एवं कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस तथा श्री विकार हुसैन सिद्दीकी, एनएसएस समन्वयक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए एक श्रृंखला बनाई। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह, स्लोगन प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सभी आयोजन अत्यधिक सफल रहे क्योंकि वोलेंटीयर्स ने उनकी योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में बहुत प्रयास किया।

छात्रों ने शपथ ली कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करेंगे और देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का भी प्रयास करेंगे। वे अपने देश की एकता की भावना से शपथ ले रहे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि और कार्यों से संभव हुआ है। उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का भी संकल्प लिया।

अपने हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर, राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया के छात्रों और शिक्षकों ने एकता का संदेश देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर मुस्लिम खान के मार्गदर्शन में एकता मार्च निकाला और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विभाग में फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) द्वारा संयुक्त रूप से क्यूरेट की गई "सरदार पटेल – द आर्किटेक्ट ऑफ़ युनिफिकेशन" नामक एक प्रदर्शनी को डॉ. जाकिर हुसैन पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के मुंशी प्रेमचंद अभिलेखागार एवं साहित्य केंद्र में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया